

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक-30.11.2021

थानाध्यक्ष लालगंज व एंटी नारकोटिक्स टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा दिनांक-28.11.21 को आयोजित उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) 2021 की परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर पेपर आऊट करने व उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने एवं अन्य माध्यमों से नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों एवं अभ्यर्थियों सहित कुल 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रूधौली श्री अम्बिका राम के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष लालगंज श्री उमाशंकर त्रिपाठी मय पुलिस बल व प्रभारी एंटी नारकोटिक्स टीम उ0नि0 श्री योगेश सिंह मय टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा दिनांक-28.11.21 को आयोजित उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) 2021 की परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर पेपर आऊट करने व उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने एवं अन्य माध्यमों से नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों एवं अभ्यर्थियों सहित कुल 5 अभियुक्तों को आज दिनांक-30.11.2021 को समय 13:30 बजे गौरा घाट पुल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय बस्ती रवाना किया गया |

बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लालगंज जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 269/2021 धारा 420/120बी IPC व 66D IT Act तथा 4/10 सार्वजनिक परीक्षा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1. आनन्द प्रकाश यादव पुत्र राजितराम यादव निवासी ग्राम माझा मानपुर थाना गौर जनपद बस्ती |**
- 2. जगदीश यादव पुत्र कनिकराम यादव निवासी ग्राम माझा मानपुर थाना गौर जनपद बस्ती |**

3. विनय कुमार पुत्र बनारसी लाल निवासी ग्राम मुण्डेरवा (लबनापार) थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।
4. सत्येन्द्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम तिघरा थाना लालगंज जनपद बस्ती ।
5. अजीत यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी ग्राम तिघरा थाना लालगंज जनपद बस्ती ।

बरामदगी का विवरण-

1. 5 अदद मोबाइल (जिनके गैलरी में साफ्ट कापी के रूप में UP-TET परीक्षा-2021 के मूल प्रश्न-पत्र व उत्तर कुंजी उपलब्ध हैं) ।
2. नगद रुपये 2,200/- ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष लालगंज श्री उमाशंकर त्रिपाठी जनपद बस्ती ।
2. प्रभारी एंटी नारकोटिक्स टीम उ0नि0 श्री योगेश सिंह जनपद बस्ती ।
3. उ0नि0 श्री मुकुन्द त्रिपाठी- थाना लालगंज जनपद बस्ती ।
4. आरक्षी किशन सिंह, आरक्षी बृजभूषण सिंह, महिला आरक्षी गुन्जन यादव थाना लालगंज जनपद बस्ती ।
5. मुख्य आरक्षी महेन्द्र यादव, आरक्षी सर्वेश नायक, आरक्षी रमेश कुमार गुप्ता एंटी नारकोटिक्स टीम जनपद बस्ती ।
6. आरक्षी सत्येन्द्र सिंह सर्विलांस सेल जनपद बस्ती ।